



आरएमजीबी
R M G B

Rajasthan Marudhara Gramin Bank
Personnel & Human Resource Development
Head Office Jodhpur
Tel No. 0291-2593124/128
E-mail : hrd@rmgb.in

सूचना

दिनांक : 17.09.2024

कम्प्यूटर वेतन वृद्धि से संबंधित सूचनाएं संकलित करने बाबत।

विषयान्तर्गत ऐसे कार्मिक जो दिनांक 01.11.1993 को या उससे पहले बैंक सेवा में थे, परन्तु आज दिनांक को उन्हें वेतन / पेंशन / फेमिली पेंशन का भुगतान नहीं होने के कारण से बैंक के पास उनसे संबंधित सूचनाएं नहीं है।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी कर्मचारी जो दिनांक 01.11.1993 या उससे पूर्व बैंक सेवा में थे तथा जिन्हें कम्प्यूटर वेतन वृद्धि का लाभ पूर्व में नहीं मिला है और वर्तमान में वेतन / पेंशन / फेमिली पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे है अर्थात् बैंक सेवा से पदच्युत / अनिवार्य सेवानिवृत्त / त्याग पत्र दे चुके अथवा मृत कार्मिकों के वैधानिक उत्तराधिकारी, से सूचनाएं एकत्रित की जाये।


अतः सभी संबंधितों को यह सूचित किया जाता है कि सभी पूर्व कार्मिक / मृत कार्मिकों के वैधानिक उत्तराधिकारी सलंगन प्रारूप (अनुलग्नक - I / II, जो भी लागू हो) में सूचनाएं पूर्ण कर, दिनांक 25.09.2024 तक संबंधित क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय को प्रस्तुत / प्रेषित करे, ताकि क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के माध्यम से उक्त सूचनाएं कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास विभाग, प्रधान कार्यालय जोधपुर को प्राप्त हो सके।

राजे-5 3511

(आर.के गुप्ता)

महाप्रबन्धक

सलंगन : यथोक्त।



Format of information of Ex-staff
(as per circular no. 165/HRD/28/2024-25 Dated 16.09.2024)

Place:

Date :

To,

The General Manager,
Rajasthan Marudhara Gramin Bank,
Head Office, Tulsi Tower,
9th B Road, Sardarpura,
Jodhpur (Raj) 342001
Email: hrd@rmgb.in

Dear Sir,

Sub: Submission of information in reference to Computer Increment Benefit

I am an ex-employee of the bank, humbly submit this information for your kind consideration. I have seized from the service of the bank on by resignation / Compulsory Retirement / Voluntary Retirement/ Termination/ Dismissal (strike of which is not applicable). I would like to bring to your attention that I am eligible for the computer increment benefit as my name was on the bank payroll as on 01-11-1993, as per the applicable rules and policies.

In reference to bank e-circular no. 165/HRD/28/2024-25 dated 16.09.2024, I hereby submit the information as mentioned hereunder:

Name :

Emp. ID :

PF No. :

Address :

Contact No :

Aadhaar No:

PAN Number:

Bank Details :

1) Account holder Name:

2) Bank Name:

3) Branch Name:

4) Account Number:

5) IFSC Code:

6) MICR Code (if applicable):


Thank you in anticipation of your cooperation.

Yours Sincerely.

(Signature)

Name :

Emp. ID :



Enc: (1) Proof of Service (if any) (2) Self-attested copy of Bank Account Passbook (3) Self-attested copy of Aadhaar (4) Self-attested copy of PAN Card.

Format of information by the legal heir of the deceased staff
(as per circular no. . 165/HRD/28/2024-25 Dated 16.09.2024)

Place:

Date :

To,
The General Manager,
Rajasthan Marudhara Gramin Bank,
Head Office, Tulsi Tower,
9th B Road, Sardarpura,
Jodhpur (Raj) 342001
Email: hrd@rmgb.in

Dear Sir,

Sub: Submission of information in reference to Computer Increment Benefit for late
..... (name of the deceased)

I am the (relationship) of late and humbly submit this information on behalf of the deceased in the capacity of the legal heir. Late had seized from the service of the bank on by resignation / Compulsory Retirement / Voluntary Retirement/termination/ dismissal/ death (strike of which is not applicable). It is to be noted that his name was on the bank payroll as on 01-11-1993, which makes him eligible for the computer increment benefit as per the bank policies.

Unfortunately, late passed away on and I, being the legal heir, in reference to bank e-circular no. 165/HRD/28/2024-25 dated 16.09.2024, submit the information as mentioned hereunder:

Name of the Claimant :

The legal heir of the Late :

Emp.ID of the demised :

PF No. of the demised :

Address:

Contact No:

Aadhaar Number of the demised:

Aadhaar Number of the Claimant:

PAN number of the Claimant:

Bank details of Claimant :

1) Account holder Name:

2) Bank Name:

3) Branch Name:

4) Account Number:

5) IFSC Code:

Thank You for Your consideration.

Yours Sincerely.

(Signature)

Name:

The legal heir of Late : , Emp. ID.

Enc: (1) Proof of Service of the demised (if any) (2) Death certificate (3) Legal heir certificate (4) Attested copy of Aadhar card of the demised (5) Self-attested copy of Aadhar card of the Claimant (6) Self-attested copy of PAN Card of the claimant. (7) Self-attested copy of Bank Account Passbook

